

**\*प्रेस विज्ञप्ति\***

**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक नवम्बर 26, 2022\***

**!! □ आज दिनांक 26.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महराजगंज श्री डॉ0 कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!**

\*1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. महराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

**3.\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 312 वाहनों का चालान किया गया।

\*4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संप्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

**\*5. \*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 8 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*6. \*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*7. \*अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा अवैध शराब/ मादक पदार्थ/खदीदफरोक्त/ तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न थानों से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके उपर अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से 35 लीटर कच्ची, 27 शीशी देशी शराब व 30 शीशी नेपाली शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

**\*!!जनपद महाराजगंज थानो द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!\***

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा चार नफर अभियुक्तों के पास से 7 बोरी यूरिया खाद 110 मोटरसाइकिल 03 अदद साइकिल बरामद कर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा अज्ञात अभियुक्त से 9 बोरी डीएपी खाद 6 बोरी यूरिया खाद 03 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई।

थाना पुरंदरपुर द्वारा अभियुक्तगणों- सूरज पांडे पुत्र चंद्र प्रकाश निवासी थरौली बुजुर्ग थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज 02. इरफान पुत्र मुस्ताक निवासी परसा दयाराम थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज 03.अजय पुत्र रामदास निवासी सेमरहनि टोला सुरपार थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए गुंडा अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा राममिलन पुत्र टनमन निवासी ग्राम बभनी बुजुर्ग थाना कोल्हुई के विरुद्ध भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न अपराध कार्य करने के कारण थाना स्थानीय द्वारा गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की गई।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों 01. संजय पुत्र राजनारायण निवासी गिरिहिया 02.श्रवण पुत्र नंदलाल निवासी बजहा 03. नंदलाल यादव पुत्र काशी निवासी बजह 04 मिथुन पुत्र अयोद्यया निवासी बढिया मुस्तकीम थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

**\*8. \*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 35 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

**\*9. \*जनपद में 25/26.11.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 16 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।\***

**\*10.आदेश-\*** महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा